



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1591]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2007/पौष 5, 1929

No. 1591]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2007/PAUSA 5, 1929

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2183(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार की तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1417(अ) तारीख 11 दिसम्बर, 2003 द्वारा केन्द्रीय सलाहकार समिति का तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन किया गया था और उक्त समिति की अवधि, 10 दिसम्बर, 2006 को समाप्त हो चुकी है;

और केन्द्रीय सरकार का विचार है कि ऐसी समिति का पुनर्गठन किया जाए, अतः केन्द्रीय सरकार, अब सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1984 के नियम 3 के उप-नियम (1), नियम 4 के उप-नियम (1) और नियम 16 के साथ पठित सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 (1981 का 33) (उक्त अधिनियम) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है और उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित सलाहकार समिति के कार्य का समन्वय करने के लिए और उक्त अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न मामलों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है, अर्थात् :-

1. केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) —अध्यक्ष
श्रम और रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

नियम 3(i) क (ii) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय सरकार के नामनिर्देशिती

2. सचिव, —उपाध्यक्ष (पदेन)
श्रम और रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

नियम 3(i) क (iii) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय सरकार के नामनिर्देशिती

3. महानिदेशक (श्रम कल्याण), —सदस्य (पदेन)
श्रम और रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।
4. संयुक्त सचिव (फिल्म), —सदस्य (पदेन)
सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

नियम 3(i) क (iv) के अधीन नियुक्त कल्याण आयुक्त

5. कल्याण आयुक्त, —सदस्य (पदेन)
श्रम कल्याण संगठन, बंगलौर ।
6. कल्याण आयुक्त, —सदस्य (पदेन)
श्रम कल्याण संगठन, कोलकाता ।
7. कल्याण आयुक्त, —सदस्य (पदेन)
श्रम कल्याण संगठन, हैदराबाद ।
8. कल्याण आयुक्त, —सदस्य (पदेन)
श्रम कल्याण संगठन, नागपुर ।

नियम 3(i) क (iv) के अधीन नियुक्त सिनेमा कर्मकारों के संगठनों के प्रतिनिधि

9. श्री एस. विजयन, महासचिव, —सदस्य
आल इंडिया फिल्म इम्प्लाइज कन्फेडरेशन,
57, नेरकुंदरम पाथी, वाडापलानी,
चैन्नई-600 026
10. श्री एन.बी. उमाशंकरबाबू, सचिव —सदस्य
सदर्न इंडिया फिल्म एडिटर्स एसोसिएशन,
24, डॉ. राघवन कालोनी, वाडापलानी,
चैन्नई-600 026

11. श्री धर्मेश तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष,
आल इंडिया फिल्म इम्पलाइज कन्फेडरेशन,
113, पहला तल-कार्तिक काम्पलैक्स,
(सामने) लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल एस्टेट,
न्यू लिंक रोड, अंधेरी (वैस्ट)
मुम्बई-400 053

12. श्री दिनेश चतुर्वेदी, सचिव,
फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिल्म इम्पलाइज,
113, पहला तल-कार्तिक काम्पलैक्स,
(सामने) लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल एस्टेट,
न्यू लिंक रोड, अंधेरी (वैस्ट)
मुम्बई-400 053

13. श्री ओ. कल्याण, अध्यक्ष,
ए.पी. फिल्म इंडस्ट्री इम्पलाइज फेडरेशन,
प्लॉट सं. 7, फेस III-3 कमलापुरी कालोनी,
श्री नगर कालोनी (डाकघर), हैदराबाद-500 073

14. श्री अशोक, कोषाध्यक्ष,
कर्नाटक फिल्म वर्कर आर्टिस्ट,
टैकनिशियन फेडरेशन,
सं. 1/1, सेकण्ड मेन रोड, गांधीनगर,
बंगलौर-560 009

15. श्रीमती अर्पणा घटक, संयुक्त सचिव,
फेडरेशन ऑफ सिने टेकनिशियन एंड
वकर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया,
30 चंडी घोष रोड, कोलकाता-700 040

नियम 3(i)(क)(v) के अधीन नियुक्त फिल्म निर्माता संगठनों के प्रतिनिधि

16. सुश्री सुषमा शिरोमणी,
मैसर्स शिरोमणी चित्रा,
1, विजय राज, प्लॉट सं. 288, नवां रोड,
खार (पश्चिम), मुम्बई-400 052

17. डॉ. पी.वी. गंगाधरन,
के. टी. सी. बिल्डिंग, वाई.एम.सी.ए. रोड,
कालीकट-673 001

18. श्री एल. सुरेश,
तमिलनाडु फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन,
रहेजा काम्पलैक्स, चौथा तल,
834, मार्गट रोड, चैन्नई-600 022

19. श्री जगदीश शर्मा,
ए-20, नार्थ बम्बई हाउसिंग सोसाइटी,
जुहू, मुम्बई-400 049

20. श्री शैलेन्द्र गोयल,
नार्थ इंडियन फिल्म एसोसिएशन,
डी/48, कालकाजी, नई दिल्ली-110 019

21. श्री विजय खेमका,
48, चितरंजन एवन्स, कोलकाता-700 012

22. श्री के. सी. एन. चंद्रशेखर
9/7, यमुनाभाई रोड, बेंगलूर-560 001

नियम 3(i)(ख) के अधीन नियुक्त सचिव

23. कल्याण आयुक्त (मुख्यालय),
श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली-110011

[सं. यू-23012/01/2006-डब्ल्यू-II(सी)]

अनिल स्वरूप, महानिदेशक (श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2007

S.O. 2183(E).—Whereas, by a notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour number S.O.1417(E), dated the 11th December, 2003, the Central Government constituted the Central Advisory Committee, for a period of three years and the term of the said Committee has since expired on 10th December, 2006;

And, whereas, the Central Government is of the view that such Committee must be reconstituted; now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Cine Workers Welfare Fund Act, 1981(33 of 1981), (the said Act) read with sub-rule (1) of rule 3, sub-rule (1) of rule 4 and rule 16 of the Cine Workers Welfare Fund Rules, 1984, the Central Government hereby reconstitutes the Central Advisory Committee and appoints the following persons to the said Committee to co-ordinate the work of the Advisory Committee constituted under Section 5 of the said Act and to advise the Central Government on the matters arising out of the administration of the said Act, for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

1. Union Minister of State
(Independent Charge)
for Labour and Employment,
Government of India, New Delhi.

Nominee of the Central Government appointed under rule 3(i)(a)(ii)

2. Secretary,
Ministry of Labour and Employment, (ex-officio)
Government of India, New Delhi.

Nominee of the Central Government appointed under rule 3(i)(a)(iii)

3. Director General (Labour Welfare),
Ministry of Labour and Employment, (ex-officio)
Government of India, New Delhi.

4. Joint Secretary (Films), —Member
Ministry of Information and (*ex-officio*)
Broadcasting, Government of India,
New Delhi.

Welfare Commissioners appointed under rule 3(i)(a)(iv)

5. Welfare Commissioner, —Member
Labour Welfare Organisation, (*ex-officio*)
Bangalore.
6. Welfare Commissioner, —Member
Labour Welfare Organisation, (*ex-officio*)
Kolkata.
7. Welfare Commissioner, —Member
Labour Welfare Organisation, (*ex-officio*)
Hyderabad.
8. Welfare Commissioner, —Member
Labour Welfare Organisation, Nagpur. (*ex-officio*)

Representatives of the Cine Workers' Organisations appointed under rule 3(i)(a)(vi):

9. Shri S. Vijayan, —Member
General Secretary,
All India Film Employees Confederation,
57, Nerkundram Pathi,
Vadapalani, Chennai-600 026.
10. Shri N.S. Umashankarbabu, —Member
Secretary,
Southern India Film Editor's Association,
24, Dr. Raghavan Colony,
Vadapalani, Chennai-600 026.
11. Shri Dharmesh Tiwari, —Member
Acting President,
All India Film Employees Confederation,
113, First Floor - Kartik Complex,
(Opposite) Lakshmi Industrial Estate,
New Link Road, Andheri (West),
Mumbai-400 053.
12. Shri Dinesh Chaturvedi, —Member
Secretary,
Federation of Western India Film Employees,
113, First Floor - Kartik Complex,
(Opposite) Lakshmi Industrial Estate,
New Link Road, Andheri (West),
Mumbai-400 053.
13. Shri O. Kalyan, —Member
President,
A.P. Film Industry Employees Federation,
Plot No.7, Phase III - 3, Kamalapur Colony,
Sri Nagar Colony (Post) Hyderabad- 500 073.

14. Shri Ashok, —Member
Treasurer,
Karnataka Film Workers' Artists, Technicians
Federation, No. 1/1, Second Main Road,
Gandhinagar, Bangalore-560 009.

15. Smt. Aparna Ghatak, —Member
Joint Secretary,
Federation of Cine Technicians & Workers of
Eastern India, 30 Chandi Ghosh Road,
Kolkata-700 040.

Representatives of Cine Producer's Organisations appointed under rule 3(i)(a)(v):

16. Ms. Sushama Shiromanee, —Member
M/s. Shiromanee Chitra,
1, Vijay Raj, Plot No. 288,
9th Road, Khar (West), Mumbai-400 052.
17. Dr. P.V. Gangadharan, —Member
K.T.C. Building,
Y.M.C.A. Road, Calicut-673 001.
18. Shri L. Suresh, —Member
Tamilnadu Film Distributors Association,
Raheja Complex, 4th Floor,
834, Mount Road, Chennai-600 002.
19. Shri Jagdish Sharma, —Member
A-20, North Bombay Housing Society,
Juhu, Mumbai-400 049.
20. Shri Shalendra Goel, —Member
North Indian Film Association,
D/48, Kalkaji,
New Delhi-110 019.
21. Shri Bijay Khemka, —Member
48, Chittaranjan Avenue,
Kolkata-700 012.
22. Shri K.C.N. Chandrashekar, —Member
9/7, Yamunabhai Road,
Bangalore-560 001.

Secretary appointed under rule 3(i)(b)

23. Welfare Commissioner (Headquarters), —Secretary
Ministry of Labour and Employment
Government of India
New Delhi-110011.

[No. U-23012/01/2006-W.II(C)]

ANIL SWARUP, Dir. Genl. (Labour Welfare)/Jt. Secy.